



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264136
CG-DL-E-25062025-264136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2782]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/ आषाढ़ 4, 1947

No. 2782]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ ASHADHA 4, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2025

सं. 57/2024-2025

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल को टूटे हुए चावल का निर्यात।

का.आ. 2848(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल को टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु अधिसूचना सं. 15/2024-25 दिनांक 05.06.2024 और अधिसूचना सं. 42/2024-25 दिनांक 05.12.2024 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 को निम्नानुसार संशोधित करती है:—

अधिसूचना सं. 15/2024-25 दिनांक 05.06.2024 अधिसूचना सं. 42/2024-25 दिनांक 05.12.2024 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा (मात्राओं) हेतु सेनेगल को एनसीईएल के माध्यम से टूटे हुए चावल (आईटीसी (एचएस) 10064000) के निर्यात हेतु समयावधि को दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक आगे 1 माह के लिए बढ़ाया गया है।

अधिसूचना का प्रभाव: एनसीईएल के माध्यम से सेनेगल को दूटे हुए चावल के निर्यात हेतु समयावधि को दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक आगे 1 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

[फा. सं 01/91/191/049/एम-24/ईसी/ई-37225]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2025

No. 57/2024-25

Subject: Export of Broken Rice to Senegal through National Cooperative Exports Limited (NCEL) -reg

S.O. 2848(E) — In exercise of powers conferred under Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 46 dated 30.11.2023 read with Notification No. 15/2024-25 dated 05.06.2024 and Notification No. 42/2024-25 dated 05.12.2024 for the export of Broken Rice to Senegal through NCEL, as under: -

The time period for **Export of Broken Rice (ITC(HS) 10064000) through NCEL to Senegal** for the quantity(s) notified vide Notification No. 46 dated 30.11.2023 read with Notification No. 15/2024-25 dated 05.06.2024 and Notification No. 42/2024-25 dated 05.12.2024 has been further extended by 1 months **up to 28th February 2025**.

Effect of the Notification: Time period for Export of Broken Rice to Senegal through NCEL has been extended for 1 months up to 28th February 2025.

[F. No. 01/91/191/049/AM-24/EC/E- 37225]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.